

# प्राथमिक छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन- इस आने वाले स्कूल वर्ष के लिए (CURRENT SCHOOL YEAR)

माता-पिता अब माईएजुकेशन बीसी नामक ऑनलाइन प्रांतीय छात्र सूचना प्रणाली का उपयोग करके लैंगले में किंडरगार्टन और प्राथमिक छात्रों को पंजीकृत कर सकते हैं। (MyEdBC) **नोट:** 

शुरू करने से पहले, कृपया पंजीकरण पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी को सत्यापित करने के लिए मूल SD35.bc.ca पृष्ठ पर जाएं। इसमें अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और आपका स्कूल कैचमेंट शामिल है। पठनीय डिजिटल छवियों की आवश्यकता है। यह सूची प्रांतीय ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म के सुझाव से थोड़ी अलग हो सकती है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स को सिस्टम से हटा दिया जाता है। **यह भी जानें:** 

> 1. यदि आप एक नया खाता बनाने का प्रयास करते हैं और एक मौजूद है, तो आपको एक चेतावनी प्राप्त होगी। कृपया : <u>https://www.sd35.bc.ca/students-parents/myedbc-family-portal-help/</u> पर अपने वर्तमान जिले या लैंगली मायएड समर्थन से संपर्क करें। 2. यदि आपको अपना एक्सेस कोड याद नहीं है, तो कृपया लैंगली मायएड सपोर्ट से संपर्क : <u>https://www.sd35.bc.ca/students-parents/myedbc-family-portal-help/</u> 3. यदि आपको नया पंजीकरण शुरू करने के लिए प्रारंभ बटन दिखाई नहीं देता है, तो लैंगली

> MyEd समर्थन <u>https://www.sd35.bc.ca/students-parents/myedbc-family-portal-help/</u>

4. यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया https://www.sd35.bc.ca/studentsparents/registration-2/registration/ पर जानकारी की जांच करें और यदि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है तो कृपया स्कूल से संपर्क करें। यदि आपके पास पहले से ही MyEd खाता है, तो कदम 5 को छोड़ दें। यदि आपके पास MyEd BC खाता **नहीं** है, तो कदम 1-4 का पालन करें

1. https://myeducation.gov.bc.ca/aspen पर जाना और अपने लिए एक वैध ईमेल पता दर्ज व	<b>कर</b> ना
MyEducation BC Prod	
MyEducation BC Login ID	
Request an account	
Login Information I forgot my password	
+) Log On	
Login using BC Services Card below	
Enterprise BCSC Production SSO BC Services Card	
2 "मैं एक अधिभावक/अधिभावक हं जो अपने तरने को ऑनवाहन पंजीकव कर रहा हं" न	न्तें
2. में २५७ आगमापद्मग्रीमिमाददग हूँ जा अपने बेटद पंग आगसाइम पठापृत्त पर रहा हूँ प् और अगला कदम क्लिक करें	5
Account Type Please choose one of the available account types below.	
I am a parent/guardian registering my child online     Choose this option if you have never created a MyEducation BC account     Click here to have the account validation email resent	
Next Step → Close	
यदि आप एक नया खाता बनाने का प्रयास करते हैं और एक पहले से मौजूद है, तो आपको एक	5
चेतावनी संदेश प्राप्त होगा। कृपया अपने वर्तमान जिले या Langley MyEd समर्थन से संपर्क करें https://www.sd35.bc.ca/students-parents/myedbc-family-portal-help/	

```
यदि आपके पास MyEd खाता नहीं है (जारी)
```

Information for the acc Legal first name * Legal fast name * Street address * RR Number / PO Box City * State/province * Postal code * Home phone * School District *	count holder (for a parent or guardian, this is your information, not your child's)     Parent   Test   2222-2 Street   Langley   BC    V1M 3N3   604-999-9999   Langley
म्ल्ल्ला उपने 4. अपने ईमेल पते, पासवर्ड और * खाता सत्यापन ईमेल के लिए कृपया अपने स्पैम/जंक फ़ोल्डर	प्रिक्षा प्रश्न के साथ अपना <b>खाता सेट</b> करें अपना ईमेल देखें। यदि आप इसे अपने बॉक्स में नहीं देखते हैं, की जाँच करें।

यदि आपके पास पहले से ही एक MyEd खाता है तो यहां जारी रखें

5. <u>https://myeducation.gov.bc.ca/aspen/logon.do</u> में **लॉग इन** करें निचले दाहिने हाथ की तरफ स्टार्ट ए न्यू स्टूडेंट लेबल वाला एक बॉक्स होगा पंजीकरण। नया पंजीकरण शुरू करने के लिए +Initiate बटन पर क्लिक करें। पहले कोई भी प्रारंभ या सबमिट किए गए पंजीकरण नीचे दिए गए बॉक्स में दिखाई देंगे। एक बार सबमिट करने के बाद स्थिति सबमिट की गई में बदल जाएगी और स्थिति में कोई भी परिवर्तन यहां दिखाई देगा। यदि आपको नया पंजीकरण शुरू करने के लिए Initiate बटन दिखाई नहीं देता है, तो Langley MyEd से संपर्क करें



जोड़ने के लिए https://www.sd35.bc.ca/students-parents/myedbc-family-portal-help/ पर समर्थन आपके खाते का विकल्प.

## एक नया पंजीकरण बनाना

इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले कृपया <u>https://www.sd35.bc.ca/students-parents/registration-</u> <u>2/registration/</u>पंजीकरण के लिए लेजबल इमेजेस की आवश्यकता होती है।

6. पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई 'टॉप टैब' हैं।

a) स्टार्ट टॉप टैब स्कूल वर्ष के लिए पूछता है। यदि आप चालू वर्ष के लिए अपने बच्चे का पंजीकरण कर रहे हैं(CURRENT YEAR) चयन करें अगर आप आगामी सितंबर के लिए अपने बच्चे का पंजीकरण कर रहे हैं (UPCOMING YEAR) का चयन करें

Start	Student	School	Family/Contacts	Additional Information	Documents	Submit	
Instruction	\$						
Please complete	e each of the tabs	, and then "Submi	" when finished.				
If you need to st	op and come bac	k later, select 🖺 S	ave & Close'. All you	r information is a	utomatically saved	when you move to a	new tab, or select the 'Next +' or '+ Previous' buttons.
Personal Inform	nation Notice						
The information the Freedom of to health service have any questi	required for regis Information and F is, social services ons about the info	tration purposes of Protection of Privat or support service rimation recorded	n this form is collecte y Act (FOIPPA, BC). es as outlined in Sect on this form, please o	d by Districts and The information p ion 79(2) of the Si contact your Distri	Schools in BC un rovided will be use chool Act. The info ct or School Admir	der the authority of t ad for educational pr rmation collected on histrator.	te School Act, Section 13 and 79, and in accordance with s. 26(c) of ogram and administrative purposes, and if required, may be provided this form will be protected consistent with s. 30 of FOIPPA, BC. If you
Contact informa	tion can be found	on the BC K-12 S	chool and District Co	ntact Information	page		
School Yea	r Selection						
To begin a regis	tration application	, select a school y	ear below:				
<ul><li>2024-2025</li><li>2025-2026</li></ul>							
All your changes	s are saved when	you click the Nex	t or Previous buttons	. You may click \$	ave & Close at an	y time to save your	vork and return to complete the registration application later.
- Prestous	Save & Clos	Meyr	¥ Cancel				

6. (जारी रखें)

b) छात्र शीर्ष टैब छात्र विशिष्ट जानकारी के लिए है। यदि आप किसी मौजूदा का उपयोग कर रहे हैं

Start	Student	School	Family/Contacts	Additional Information	Documents	Submit			
tudent Infor	mation								
egal Name					Preferred	Name			
First *					First *				
Middle					Middle				
Last *					Last *				
Suffix		•							
Gender *					PEN				
					BC Per	sonal Health Numb	r		
you wish to volu	ntarily identify th zenship	is student as be	eing a person of Indiger	nous Ancestry, se	lect one:	•			
f you wish to volur <b>Firth and Citi</b> <u>Hace of birth</u>	itarily identify th	is student as be	eing a person of Indige	nous Ancestry, se	lect one:	✓	•		
f you wish to volu <b>Firth and Citi</b> <del>lace of birth</del> Country of birth	zenship	is student as be	eing a person of Indiger	nous Ancestry, se	lect one: Country o	f citizenship *     in Canada	~		
f you wish to volur Birth and Citi Place of birth Country of birth I born in Canada	tarily identify th zenship	is student as be	eing a person of Indigen	nous Ancestry, se	lect one: Country o <u>If not born</u> Arrival i	f citizenship * in Canada n BC	~	111	
f you wish to volue Birth and Citi Alace of birth Country of birth Loom in Canada Province of birth	zenship	is student as be	sing a person of Indiger	nous Ancestry, se	lect one: Country o <u>If not borr</u> Arrival i Arrival i	f citizenship * in Canada n BC n Canada	~	) III) III:	
f you wish to volu Airth and Citi Yace of birth Country of birth Loom in Canada Province of birth	zenship	is student as be	sing a person of Indiger	nous Ancestry, se	lect one: Country o <u>If not born</u> Arrival i Arrival i	Citizenship Citiz	~	8	
f you wish to volu Birth and Citi Nace of birth Country of birth Dom in Canada Province of birth Age and Grad	tarily identify the zenship	is student as be	sing a person of Indiger	nous Ancestry, se	Country o If not borr Arrival i Arrival i	Citizenship Citizenship In Canada In BC In Canada	v	8	
f you wish to volu Birth and Citi Vace of birth Country of birth (born in Canada Province of birth Age and Grace nter the student's	tarily identify the zenship	is student as be	sing a person of Indiger	nous Ancestry, se	Country o Country o <u>If not borr</u> Arrival i achool year for while	Citizenship Citiz	<b>v</b> 9.	- 12 - 12	
f you wish to volue <b>Sirth and Citil</b> <b>Vace of birth</b> Country of birth <b>Country of birth</b> <b>Province of birth</b> <b>Age and Grad</b> nter the student's the calculated grad	itarily identify the sense of t	is student as be	eing a person of Indiger ine the grade and age prade you are registerin	nous Ancestry, se on Dec 31 in the s	Country o If not borr Arrival i achool year for while	citizenship * in Ganada n BC n Canada ch you are registed in the Comment	9. Id on the Submit tab	at the end of the registration	application
f you wish to volue <b>Birth and Citi</b> Place of birth Country of birth Country of birth form in Canada Province of birth <b>Age and Grac</b> niter the student's the calculated grac Date of birth (mm/o	tarily identify the zenship	is student as be	ing a person of Indiger ine the grade and age grade you are registerin	on Dec 31 in the s	Country o If not borr Arrival i achool year for while	citizenship * in Canada n BC n Canada ch you are registed in the Comment	9. Bid on the Submit Lab	at the end of the registration	application
f you wish to volue <b>Sinth and Citi</b> Place of birth Country of birth Country of birth Country of birth Country of birth (ge and Crace of birth the calculated gra Date of birth (mm/ sige as of Dec 31	Itarily identify the sense of t	is student as be includent as be includent as be includent as being a state of the general s	ing a person of Indiger ine the grade and age yrade you are registerin in Age	on Dec 31 in the s	lect one: Country o If not borr Arrival i Arrival i school year for while	f citizenship • in Canada n BC n Canada	9. Joid on the Submit tab	at the end of the registration	application

MyEducation खाता, कुछ जनसांख्यिकीय जानकारी स्वतः भर जाएग

### 6. (जारी रखें)

Chool Selection         Is School District Websites provide detailed information around Kindergarten registration details that are unique to their own district processes.         Is Ministry provides details around Full Day Kindergarten here.         Isolow Jour Will see a list of schools participating in online registration based on the selected school district and the calculated grade level.         ease select from this list. If the school desprice is pollitied as a participant to online registration: <ul> <li>Ensure you have the correct School District selected</li> <li>Indicate the desired school in the Comment field on the Submit tab</li> <li>Contact the desired school for registration information</li> </ul> <ul> <li>Contact the desired school appropriate for your address</li> <li>If angley</li> <li>Requested School</li> <li>StreetAddress</li> <li>City</li> <li>Phone1</li> <li>StartGrade</li> <li>End Grade</li> <li>KF</li> <li>Of</li> <li>KF</li> <li>Of</li> </ul>		Student	School	Family/Contacts	Information	Documents	Submit			
School District Websites provide detailed information around Kindergarten negistration details that are unique to their own district processes.   ie Ministry provides details around Full Day Kindergarten here.   sease select from this list of schools participating in online registration based on the selected school district and the calculated grade level.   ease select from this list. If the school desired is <u>not listed</u> as a participant to online registration.   e. Ensure you have the correct School District selected   indicate the desired school in the Comment field on the Submit tab   b. Contact the desired school for registration information   other ensure schools appropriate for your address   ensure School name or city: <b>Requested School</b> StreetAddress   City   Phone1   KF   07   KF    07   KF    07   KF   07   KF   07	School Sele	ection								
ee Munistry provides details around Full Day Kindergarten here. How you will see a list of schools participating in online registration based on the selected school district and the calculated grade level. Easure you have the correct School District selected Indicate the desired school in the Comment field on the Submit tab Contact the desired school of registration information other. If the district you are registering for is not available in the list, please check that district's website for their registration process. Hool district Langley Requested School appropriate for your address re this list by school name or city: Requested School is the Calculated School appropriate for your address Requested School is the Calculated school appropriate for your address Requested School is the Calculated school appropriate for your address Requested School is the Calculated school is the Calculated school district is website for their registration is calculated is the school appropriate for your address Requested School is the Calculated school is	All School Distric	ct Websites provide	e detailed inform	ation around Kinderga	arten registration d	letails that are uniqu	e to their own district proces	ises.		
How you will see a list of schools participating in online registration based on the selected school district and the calculated grade level. - Ensure you have the correct School District selected - Indicate the desired school in the Comment field on the Submit tab - Contact the desired school in the Comment field on the Submit tab - Contact the desired school in the Comment field on the Submit tab - Contact the desired school in the Comment field on the Submit tab - Contact the desired school appropriate for your address refuls Ist by school name or city: - Requested School I appropriate for your address - Reput I appropriate for your address - Requested School I appropriate for your address - Reque	The Ministry pro <sup>,</sup>	vides details aroun	d Full Day Kind	ergarten here.						
ease select from this list. If the school desired is <u>not listed</u> as a participant to online registration:	Below you will se	ee a list of schools	participating in	online registration bas	ed on the selected	I school district and t	he calculated grade level.			
<ul> <li>Ensure you have the correct School District selected</li> <li>Indicate the desired school in the Comment field on the Submit tab</li> <li>Contact the desired school for registration information</li> <li>contact the desired school for registration information</li> </ul>	Please select fro	om this list. If the so	chool desired is	not listed as a particip	pant to online regi	stration:				
<ul> <li>Indicate the desired school in the Comment field on the Submit tab</li> <li>Contact the desired school for registration information</li> <li>contact the desired school for registration information</li> </ul>	• Ens	sure you have the	correct School [	District selected						
Contact the desired school for registration information      Sete: If the district you are registering for is not available in the list, please check that district's website for their registration process.      The district lengley registering for is not available in the list, please check that district's website for their registration process.      The district lengley registering for your address      FreetAddress	• Indi	icate the desired s	chool in the Cor	nment field on the Sul	bmit tab					
the district you are registering for is not available in the list, please check that district's website for their registration process.	• Cor	mact the desired s	chool for registra	auon information						
hood district Langley	Note: If the distri	ict you are register	ing for is not av	ailable in the list, pleas	se check that distri	ct's website for their	registration process.			
hold district Langley										
August district Langley     guired: Select the school appropriate for your address     re this list by school name or city:     Requested School     Street Address     City   Phone1   StartGrade   End Grade   KF   07   KF   67   KF   67   KF   67   KF   67   KF   67										
guined:       City       Phone1       StartGrade       End Grade         Requested School       StreetAddress       City       Phone1       StartGrade       End Grade         Note:       KF       07         KF       07       KF       07         KF       05       05       05	chool district	Landley		~						
Requested School name or city:     StreetAddress     City     Phone1     StartGrade     End Grade       StreetAddress     StreetAddress     KF     07       KF     07     KF     07       KF     05     KF     05	citori district	Langiey								
Requested School name or city:	equired: Select	the school appropr	iate for your add	iress					Grade level	ĸ
Requested School     StreetAddress     City     Phone1     StartGrade     End Grade       KF     07       KF     07       KF     07       KF     05										
Requested School     StreetAddress     City     Phone1     StartGrade     End Grade       KF     07       KF     07       KF     07       KF     05										
KF     07       KF     07       KF     07       KF     05	ilter <mark>t</mark> his list by so	chool name or city	:	18						
КF 07 КF 05	ilter <mark>t</mark> his list by s	chool name or city ted School	:	St	reetAddress	City	Phone1	StartGrade	End Grade	
KF 05	Request	chool name or city ted School	:	St	reetAddress	City	Phone1	StartGrade	End Grade	
	Request	chool name or city ted School		St	reetAddress	City	Phone1	StartGrade KF KF	End Grade 07 07	
	Request	chool name or city ted School		St	reetAddress	City	Phone1	StartGrade KF KF	End Grade 07 07	
	ilter this list by s Request	chool name or city ted School	:	St	reetAddress	City	Phone1	StartGrade	End Grade	
	Request	chool name or city ted School		St	reetAddress	City	Phone1	StartGrade KF KF KF	End Grade 07 07 05	
your changes are saved when you click the Next or Previous buttons. You may click Save & Close at any time to save your work and return to complete the registration application later.	Request	chool name or city ted School	u click the Next	or Previous buttons.	You may click Sa	City	Phone1	StartGrade KF KF KF	End Grade 07 07 05 application later.	
your changes are saved when you click the Next or Previous buttons. You may click Save & Close at any time to save your work and return to complete the registration application later.	Iter this list by s Request	chool name or city ted School	e	st or Previous buttons.	You may click Sav	City	Phone1	StartGrade KF KF KF	End Grade 07 07 05 application later.	
your changes are saved when you click the Next or Previous buttons. You may click Save & Close at any time to save your work and return to complete the registration application later.	Request	chool name or city ted School	u click the Next	or Previous buttons.	You may click Sav	City	Phone1	StartGrade KF KF turn to complete the registration	End Grade 07 07 05 application later.	
your changes are saved when you click the Next or Previous buttons. You may click Save & Close at any time to save your work and return to complete the registration application later.	Iter this list by s Request	chool name or city ted School	u click the Next	st or Previous buttons.	You may click Sat	City	Phone1	StartGrade KF KF KF	End Grade 07 07 05 application later.	

c) स्कूल शीर्ष टैब। लैंगली स्कूल जिला और अपना कैचमेंट स्कूल चुनें।आपका कैचमेंट स्कूल SD35 वेबसाइट <u>https://www.sd35.bc.ca/schools/school-locator/</u>पर पाया जा सकता है

#### 6. (जारी रखें)

d) परिवार/संपर्क शीर्ष टैब। यदि आपके पास मौजूदा MyEducation खाता था, तो कुछखेतों की संख्या पहले से भर जाएगी। प्रारंभिक संपर्क इस फॉर्म को जमा करने वाला व्यक्ति है। कृपया शेष सभी माता-पिता/कानूनी अभिभावक और प्रत्येक के लिए तीन आपातकालीन संपर्क जोड़ें

Start	Student	School	Family/Contacts	Additional Information	Documents	Submit				
arent/Guar	dian/Other Co	ontact	en select Add to add a	ny additional conta	icts.					
ou must comple	te the relationship f	field for each cor	ntact you add.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
lick on the cont	act's first name to fi	nish filling out ar	iy missing information							
First N	ame LastN	ame #	Relationship	Phone 1	Phone 1 Typ	e Pho	one 2	Phone 2 Type	Email	
🛨 Add	💼 Delete									
iblings										
lick Add to add	any siblings who a	re ALREADY att	ending a school in this	district.						
First N	ame	Last Name	s Si	ibling Grade	Sc	nool Name				
+ Add	🖻 Delete									
€ Add	💼 Delete									
Add Il your changes	The Delete	u click the Next	or Previous buttons.	You may click Save	e & Close at any tim	e to save your	work and	return to complete	e the registration applica	tion later.
Add	Delete are saved when yo	u click the Next	or Previous buttons. \	You may click Save	e & Close at any tim	e to save your	r work and	return to complete	e the registration applica	tion later.
+ Add	Delete	u click the Next	or Previous buttons. <sup>1</sup>	You may click Save	e & Close at any tim	e to save your	work and	return to complet	e the registration applica	tion later.
Add  your changes  Previous	Delete are saved when yo Save & Close	Next →	or Previous buttons. X Cancel	You may click <b>Save</b>	a & Close at any tim	e to save your	work and	return to complete	e the registration applica	tion later.

6. (जारी रखें)

e) अतिरिक्त जानकारी शीर्ष टैब। यह पृष्ठ पिछले स्कूल की अनुमति देता है जानकारी के साथ-साथ कोई भी चिकित्सा या सीखने का समर्थन जानकारी जो आपके स्कूल को समय से पहले आपके छात्रों की जरूरतों को समझने की अनुमति देगा।

Start	Student	School	Family/Contacts	Additional Information	Doc	uments	Submit	
School His	tory							
Last School or S	StrongStart/Progr	am of Attendance						
No previous s	chool					Previous	school address	
Date last attend	led [					Previous	school city	
Reason for leav	/ing					Previous	school province	<b>Q</b>
Previous schoo	l grade	•				Previous	school country	
Previous schoo	l district							đ
Previous schoo	l name					Comment	1	
Previous schoo	l phone							
✓ Has the second se	ne student ever a	ttended a school in	this District?					
If yes, what is t	he name of the la	ist school attended i	in this District?					
Medical Inf	ormation							
Does this stude	nt have a medica	al condition? Click A	dd and provide a de	scription of the con	dition.			

### 6. ( जारी रखें )

f) दस्तावेज़ शीर्ष टैब. कृपया समर्थन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें आपका आवेदन। अद्यतन प्रलेखन आवश्यकताएँ SD35 पर पाई जाती हैं

<u>https://www.sd35.bc.ca/students-parents/registration-2/registration/</u> पर वेब साइट।

Start	Student	School	Family/Contacts	Additional Information	Documents	Submit				
ocument:	ation									
equired D	ocumentation	for Students	New to the Distr	rict						
e following is a list of required documentation to complete school registration. You may:										
- Up	pload documents w	ith your registrati	on application or							
- Pr	rovide documentati	on directly to the	school upon acceptar	nce of your registr	ration application					
roof of school	age and status in	Canada. This can	be shown using the f	following forms of	identity verification	documents:				
<ul> <li>e C Services Card with Photo, Birth Certificate, Valid Passport, Immigration Documents, Permanent Residence Card for both you and your child</li> </ul>										
yo	our child						a for boar you and			
• Pr ag	our child roof of ordinary resi greement)	idence (a docume	ent such as your curre	ent year property t	tax receipt, current	month rental rece	ot, or a purchase/rental			
• Pr ag	our child roof of ordinary res greement)	idence (a docume	ent such as your curre	ent year property t	tax receipt, current	month rental rece	ot, or a purchase/rental			
yo • Pr ag ote: Further d	our child roof of ordinary resi greement) locumentation may	idence (a docume be requested.	ent such as your curre	ent year property t	tax receipt, current	month rental rece	ot, or a purchase/rental			
vo Pr ag ote: Further d Name	our child roof of ordinary resi greement) locumentation may	idence (a documo be requested.	ent such as your curre Filename	ent year property t	tax receipt, current	month rental rece	or a purchase/rental			
yo Pr ag ote: Further d Name	our child roof of ordinary res greement) locumentation may	idence (a documo	ent such as your curre Filename	ent year property t	tax receipt, current	month rental rece D	ot, or a purchase/rental			
ote: Further d	our child roof of ordinary resi greement) locumentation may	idence (a docume be requested.	ent such as your curre Filename	ent year property t	tax receipt, current	month rental rece D	ot, or a purchase/rental			
ote: Further d Name	our child roof of ordinary resi greement) locumentation may	idence (a docume	ent such as your curre Filename	ent year property t	tax receipt, current	month rental rece D	ot, or a purchase/rental			
ote: Further d Name	our child roof of ordinary resi greement) locumentation may	idence (a docume	ent such as your curre Filename	ent year property t	tax receipt, current	month rental rece D	ot, or a purchase/rental			
• Pr ag ote: Further d Name	our child roof of ordinary resi presenent) locumentation may	idence (a docume	Filename	ent year property t	tax receipt, current	month rental rece D	ot, or a purchase/rental			
yo Privag ote: Further d Name	our child roof of ordinary res greement) locumentation may Delete es are saved when	idence (a docume be requested.	nt such as your curre Filename t or Previous buttons	ent year property t I	tax receipt, current No matching record	nonth rental rece D s	of a purchase/rental	te the registration applicat	ion later.	
ote: Further d Name Upload I your change	our child roof of ordinary resi greement) locumentation may is Delete es are saved when	idence (a docume be requested. you click the <b>Nex</b>	Filename	ent year property f	tax receipt, current No matching record	nonth rental rece D s	ot, or a purchase/rental	te the registration applicat	ion later.	
you Primagenter de la construction de la construcción de la construcc	our child roof of ordinary resi greement) locumentation may	idence (a docummented) be requested. you click the Nex	Filename	ant year property t	tax receipt, current No matching recore	month rental rece D S	of of our point you and	te the registration applicat	ion later.	

कृपया यथासंभव पूर्ण रहें क्योंकि लापता दस्तावेजों से पंजीकरण में देरी होगी

6. ( जारी रखें )

g) सबमिट टैब. यह अंतिम पृष्ठ आपको किसी भी टिप्पणी को दर्ज करने की अनुमति देता है जमा करने से पहले अपने पंजीकरण को पूरक करें। आप बचत कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं बाद की तारीख में आवेदन करने के लिए, हालांकि, पंजीकरण जमा होने के बाद स्कूल के लिए अब आपके पास इसे अपडेट करने की क्षमता नहीं होगी। अगर स्कूल किसी भी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, वे आवेदन को वापस भेज देंगे आपको बदलाव करने होंगे। इससे पंजीकरण प्रक्रिया में देरी होगी।

Start	Student	School	Family/Contacts	Additional Information	Documents	Submit	
Done!							
Congratulat	ions! You hav	e reached the	end of the Reg	istration appli	cation.		
Comment : En	er any final notes	or comments for th	ne registrar (optional)				
							đ
You may click \$	ave and Close at	any time to save	our work and return	to complete the re	gistration applicati	on later.	
Before submitti	ng your registration	n application, pleas	se review the informa	tion you have ent	ered by clicking on	each tab.	
Note: Once you	click the Submit	button you will not	be able to edit this F	legistration applic	ation.		
Previous	🖹 Save & Clos	e Next 🔶	Submit	X Cancel			

# प्राथमिक छात्रों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया सीधे स्कूल से संपर्क करें और संभव के लिए देखें स्कूल से ईमेल क्योंकि उन्हें जानकारी स्पष्ट करने के लिए आप तक पहुंचने की आवश्यकता हो सकती है पंजीकरण पूरा करने का आदेश।

⇒ अधिक जानकारी के लिए <u>https://www.sd35.bc.ca/students-parents/</u> पर SD35 वेबसाइट देखें सूचना

⇒ MyEd पोर्टल पंजीकरण की स्थिति को अपडेट करेगा क्योंकि इसे संसाधित किया जाता है ⇒ स्वीकृति पर ईमेल भेजे जाएंगे